

Government may not infuse fresh capital in general insurance firms in FY24

NEW DELHI: The Indian government has confirmed that it does not intend to provide additional capital to government-owned non-life insurance companies during the fiscal year 2023-24, according to a senior official. The official stated that these companies are expected to be self-sustaining throughout the year, with one of them even planning to pay dividends to the government. "While the non-life insurance companies are not in an optimal condition, they are still capable of sustaining themselves without government's capital infusion," the official, who spoke on condition of anonymity, revealed. In the previous year, the government had allocated R5,000 crore for capital infusion into three non-life insurance companies: National Insurance Company, Oriental Insurance Company, and United India Insurance Company. However, the Union Budget for the fiscal year 2023-24 does not include provisions for capital infusion into

As per the regulations set by the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI), insurance companies are required to maintain surplus capital to cover potential claims. This acts as a financial safeguard during exceptional circumstances, ensuring the settlement of all claims. During the fiscal year 2020-21, the government injected a total of R9,950 crore into three public sector general insurers. United India Insurance received R3,605 crore, National Insurance received R3,175 crore, and Oriental Insurance received R3,170 crore. According to ICRA, private insurers are increasing their market share in the country, while the financial stability of public sector insurers has declined. The three PSU general insurers (excluding New India) require a substantial capital infusion of around '172-175 billion by March 2024 to maintain a solvency ratio of 1.50, assuming full forbearance from the regulator.As per the regulations set by the IRDAI, insurance companies are required to maintain surplus capital to cover potential claims. This acts as a financial safeguard during exceptional circumstances, ensuring the settlement of all claims.

Gulf Oil Lubricants to Acquire Controlling Stake in Tirex Transmission for Rs 103 Crore

NEW DELHI:Hinduja Group company Gulf Oil Lubricants on Monday announced acquiring controlling stake in EV charger manufacturing firm Tirex Transmission for Rs 103 crore. The move is expected to bolster the company's presence in the Electric Vehicle (EV) segment, Gulf Oil Lubricants said in a statement. The acquisition is a part of the company's global ambition towards being a leader in the EV charging ecosystem, a market which is already valued at \$20 billion and expected to cross \$200 billion by 2030, it stated. In a strategic move to bolster its presence in the EV segment, Gulf Oil Lubricants India Limited (GOLIL) announces to acquire controlling stake in Tirex Transmission Pyt Limited for Rs 103 crore subject to the completion of definitive agreements and the satisfaction of predetermined closing conditions," the company said in the statement. The investment in Tirex, which is a manufacturer of DC fast chargers, will enable the company towards a synergistic end-to-end play in the global EV charging ecosystem, Gulf Oil Lubricants said

This acquisition of majority stake in Tirex aligns with our commitment to expanding our footprint in the EV landscape and make a significant play in EV value chain," said Ravi Chawla, MD and CEO of Gulf Oil Lubricants. The company said the acquisition positions it to capture a share of India market potential evaluated at \$1-1.4 billion in 5-7 years."Our combined strengths will pave the way for groundbreaking advancements in EV charging, both domestically and internationally in line with our Global Mobility strategy," Chawla stated.

Planning To Install Solar Panels At Home? This Company Does It For Free

NEW DELHI: The world is witnessing several experiments around renewable energy resources. The installation of solar panels can help people get electricity at affordable prices. People are thus stepping in with the decision to get solar panels installed in their homes. The solar panel not only makes electricity affordable but also contributes to saying power as it generates electricity as per your saving power, as it generates electricity as per your need. Installing solar panels can be prohibitively expensive for some, as it requires paying a large sum all at once. To solve this issue, a new model has been introduced in the market. The model enables you to pay your monthly electricity bill generated by solar panels. You will not have to pay for the installation of solar panels; instead, a firm named RESCO will take charge of everything.

RESCO (Renewable Electricity Service Company) model offers consumers electricity generated from renewable sources. As per the company's model, the solar panels will be mounted on the roof of the



consumer's house and a third party will be investing in t h e installations. The job of RESCO is to supervise the

installation project. The ownership

and administration of the solar panels will be under the RESCO concept. Notably, consumers will not be needed to make any investment in RESCO model solar. They are required to just pay for what they

The power generated by the solar panel will be used by the consumer. The subsidised rate fixed for the power generated is Rs 3.23 per unit of electricity. Moreover, a supply minimum of 1,250 units of electricity per kWp per annum will be done by the private company. If less than 1,250 units of electricity per kWh is generated per annum, a penalty per unit will be charged to the consumer. Solar energy aids in reducing air pollution as it does not release carbon like fossil fuels do. Nowadays, solar panels are also being used for irrigation in the fields. The government also provides subsidies to the farmers for the same.

To advertise in this Section Call: Manoj Gandhi 9820639237

PUBLIC NOTICE

rwinder Kaur Rajput, 2) Simran Kaur Rajput 3) Kawaljeet Kaur Rajput, 4) Mr. Ranjit Singh Rajput, 5) Rajwant Kaur Surendra Singh Rajput aving address at Room/Shop No.3, Panchar ndan Yadav Chawl, Tunga, S.V. Road owai Mumbai-400072, herein after called the said om, which is standing in the name of Surendr Singh Raiput who is husband of no.1 and father of the other above named no.2 to 5, who met with an ccident on 09/11/2020 and since then his menta tatus is not fit due to brain haemorrhage and also e is a habitual alcohol drinker. Based on this uation, there is an apprehension that he will sell the above said room/shop in influence of others. Therefore, everyone is hereby informed that n ansaction is done in respect of the above said

om/Shop with Surendra Singh Rajput, otherwise ill the responsibility would be upon that person, and ansaction and execution of the documents, if any oom/Shoo from the publication notice to give in the riting, in the office of my advocate Sanjay Kumar Mishra, office at Shop No.22. Om Vinavak Darshar CHS., Near Mayura Bar and Restaurant, Achol Road, Sunshine, Nallasopara (E), Palghar-401209 vithin a period of 15 days (both days inclusive) Of Publication hereof falling which the claim of such erson will deemed to have been waived and / or

abandoned. SANJAY K. MISHRA
Date: 29/08/2023 ADVOCATE HIGH COURT

I NARENDRA SINGH declare that my following Original documents nentioned below has been Lost/ Misplaced by me while travelling and it is not traceable even after diligent search.

Complaint lodge with Samata Naga Police Station, Kandivali (East) vide Complaint No. 2662/ 2023, Dated 26/8/2023. And Affidavit dated 26/08/2023.

(1) Agreement for sale dated 7/4/2011, (2) Power of attorney dated: 07/04/2011 (3) Affidavit dated:- 07/04/2011,

4) Hotel and Restaurant Experience Certificate and Award Certificate o

the following:-) Revival Restaurant Charni Road

) Rosy Resorts Palghar) Palkhi Restaurant Colaba

Simla Mirch Rajkot e) Food Search Santacruz

Intercontinental The Lalit Shar Airport

) The Lalit Srinagar n) Wyndham Garden Manama Bahrain (5) Voter ID,

6) Ration Card, and 7) Hotel Management Certificate

Sharda College of Managemer Studies etc in my name. If anyone found please contact

Mr. Narendra Singh: 9820464998

PUBLIC NOTICE

Notice hereby given to general public o ehalf of my client, SHRI ANIL KUMAR SURANA an adult Indian Inhabitant, age 62 ears, residing at No. 257-A, 12th Stree hase 2. Vellore, Sathuvachari, Tamilnadu 632, 009, Brother of Pramila Anand Surana The said Pramila Anand Surana was expired on dated 10/03/2021 And her usband Late Shri. Anand S. Surana was expired on dated 07/04/2016. The said Pramila and Andan Surana was holding a Flat No. A/204, Second Floor Trishala Co-op Hou, Soc. Ltd. 60 feet Road, Bhayander (W Thane 401101, by an Agreement for sale lated 28/02/2010, which is duly registe feed of declaration on dated 02/12/2010.

number is TNN7-09887/2010.. So since 2021 this flat in my client possession. The said Pramila and Anand have made a nomination on 08.06.2005 in favor of my client, they have no kids so accordingly my client is legal heirs of the said Pramila and Anand Surana. So my client wants to transfer to property Flat No. A/204, Second Floor Trishala Cooperating Hou. Soc. Ltd. 60 Feet Road havander (W) Thane 401101 on his name. any person has objection to transfer poerty the name of SHRI ANIL KUMAR SURANA they must immediately contact me on below address with supporting documents proof within 14 days from the publication of his notice failing which claim if any shall be eemed to be waive & or abandoned and dear title certificate will be given, to complete

he further legal transaction. Adv. Swati Lade Gotpagar

Bombay High Court) Office: Dr. Lelewadi Anthony Luise Chawl, Marol Pipeline, Andheri (E), Mumbai-400059

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the Public that Original Allotment Letter issued by Maharashtra Housing and Area Development Authority to MR. ISHWAR JADHAV DHAROLIA for residentia property mentioned in the schedule hereto, has been lost/misplaced by MRS. PRITI KETAN DOSHI (current owner) and is not traceable. The Complaint of same has been lodged at Charkop Police Station on 27/08/2023. Lost Report No. 74700/2023. All persons are hereby informed not

to deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing document. Any person having any right, title, interest, claim, demand or objection of any nature whatsoever in respect of the said room and/or has share or any part or said room and/or has share or any part o portion thereof by way of inheritance share, sale, purchase, mortgage, lease ien, license, gift, attachment, o encumbrance however or otherwise, is hereby required to make the same known nereby required to make the same known in writing along with the documentary proof hereof, to the undersigned at 612/B-20, Anita CHS. Ltd., Sector-6, Road RSC-52, Charkop, Kandivli West, Mumbai – 400067 within 15 days from the date of publication hereof, failing which claims if any raised hereafter, shall be deemed to have been liven up or waived off and/or shandoned ven up or waived off and/or abandoned

SCHEDULE DESCRIPTION OF THE PROPERTY

ROOM NO. B - 28 in CHARKOP (1) AISHWARYA CO-OP HSG. SOC. LTD. situated at PLOT NO. 506, SECTOR - 5, ROAD RSC - 45, CHARKOP, KANDIVLI (WEST), MUMBAI – 400 067 admeasuring 25 sq. mtrs. Built-up of Village: Kandivali, Taluka: Borivali, Mumbai Suburban District.

Nitesh D. Achrekar Date: 29/08/2023

DCB BANK

Corrigendum This is in reference to the Gold Auction notice advertisement published in Active Times and Mumbai Lakshadeep on 25.08.2023 please take note that the website mentioned as https://gold.Samil.in in the published advertisement to read as https://egold.auctiontiger.net other content mentioned in the notice advertisement continue and remains

We regret the inconvenience caused

Head Lega For DCB Bank Limited

PUBLIC NOTICE

We Partners 1) Smt Changunabai Chandrakant Chavan, Resident of Airoli, Navi Mumbai. 2) Shri Krushna Balu Mhatre, Resident of Nerul, Navi Mumbai, 3) Shri Dattatray Gana Koli, Resident of Kalwa, Thane. 4) Shri Suresh Gopal Shetty, Resident of Wagle Estate, Thane. 5) Shrivinay Krishna Shetty, Resident of

Of M/s Bhavesh Ventures Situated At Plot No Pap-k-26. Ttc Industrial Area, Midc Rabale, off Thane Belapur Road, Navi Mumbai 400708 Hereby Inform Public In General That.

"Our Partner Shri Vinay Krishna Shetty While Travelling By 2 Wheeler On 4th April 2023 From Gandhi Road To Petrol Pump At Ulhasnagar 421005 The Original Document Registered Agreement 8615/2020 And Related Documents Of Midc Land Pap-k-26, Ttc Industrial Area, Rabale, Navi Mumbai Were Lost, We Have Lodged A Fir 318/2023 Dated 08/06/2023 At Hill Line Police Station Ulhasnagar 5.

Any One Finding These Original Agreement Papers Of Midc Registration Please Inform On 70202 48003 (vinay Krishna Shetty)."

PUBLIC NOTICE

Public at large is hereby informed that my client, Smt. Sangeeta Sadashiv @ Sagar Halbhavi has applied for membership of Anini Complex CHSL Survey No. 112, Plot No. 86, Chakradhar Nagar, Nallasopara (W), Tal.Vasai, Dist. Palghar-401203 and transfer of Flat No. A/203 in the said Society as she is nominated for the same by her unmarried deceased real elder Brother Shri, Prakash Gurulingappa Heralagi who was member and holding Flat No. A/203 in the said Anjni Complex CHSL. f any person is having any kind of objection/claim or otherwise to the said transfer then, is requested to lodge claim with valid documents within 15 days of publication of this public notice to the undersigned, failing which it shall be considered as voluntarily waived abandoned and no claim of whatsoever nature shall be entertained thereafter and the said Society will give membership and transfer the said flat No. A/203 in the name of my client.

Sagar Vishnu Rokade, Advocate, Bombay High Court, Shop No.11, Samyak CHSL, Panchal Nagar, Nallasopara (W) -401203. Date: 28.08.2023

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to public at large that our client named SHRI HEMANT BHIKULAL JAISWAL and MRS. ANITA HEMANT JAISWAL, residing at C-802. Akshata CHS, Building No. 1, Tilaknagar Mumbai-400089 purchasing the property located at Flat No. C-102, Om Shree Ganesh Chhaya

CHS Ltd., Building No. 57, Tilak Nagar Chembur, Mumbai- 400089 Maharashtra admeasuring 602 sq. ft. carpet area and One associated stilt car parking (Hereinafter referred to as "the said flat premises") from MR. SUMIT S. UPADHYAY, MR. SHRAWAN M. and MRS. ALKA UPADHYAY via registered sale deed. IN these transfer, if any person has any objection, claiming any right, title, claim, demand or estate interest in respect of the said flat premises or to any part thereof by way of sale, exchange, mortgage, let, lease, lien, charge, maintenance, license, gift, inheritance, share, possession, easement, trust, bequest possession, assignment or encumbrance of whatsoever nature or otherwise are hereby requested to intimate to the undersigned in writing at the address mentioned below of any such claim accompanied with all necessary and supporting documents within 14 days from the date of publication hereof, failing which it shall be presumed that there are no claims and that claims, if any, have been waived off and the undersigned shall proceed to issue a Title Certificate in respect of the same

Date :27.8.2023 ADV. ROOPESHJAISWAL Add: 1601, 16th Floor, Lodha Aqua Antartica, B Wing, Near Dahisar Check Naka, Mira Road East, Thane 401107.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the Public that Original Allotment Letter, MHADA Passbook and Dues paid Slips issued by Maharashtra Housing and Area Development Authority to MR. JAGDISH Development Authority to MR. JAGUIAN PANDURANG BOBDE for residential property mentioned in the schedule hereto, has been lost/misplaced by MR. NARENDRA BHISAJI JADHAV and is not traceable. The Complaint of same has been lodged at Charkop Police Station or 26/08/2023. Lost Report No. 74697/2023. All persons are hereby informed not to

deal or carry out any transaction with anyone on the basis of the said missing document. Any person having any right, title, interest, claim, demand or objection of any nature whatsoever in respect of the said room and/or has share or any part o portion thereof by way of inheritance share, sale, purchase, mortgage, lease lien, license, gift, attachment, o encumbrance however or otherwise, i hereby required to make the same know hereby required to make the same known in writing along with the documentary proof thereof, to the undersigned at 612/B-20, Anita CHS. Ltd., Sector-6, Road RSC-52, Charkop, Kandivli West, Mumbai – 400067 within 15 days from the date of publication hereof, failing which claims if any raised thereafter, shall be deemed to have been given up or waived off.

SCHEDULE DESCRIPTION OF THE PROPERTY

ROOM NO. B - 7 in CHARKOP (1) SAMADHAN CO-OP HSG. SOC. LTD. situated at PLOT NO. 336, SECTOR - 3, ROAD RSC - 36, CHARKOP, KANDIVLI (WEST), MUMBAI – 400 067 admeasuring 25 sq. mtrs. Built-up of Village: Kandivli, Taluka: Borivali, Mumbai Suburban District.

Nitesh D. Achreka Date: 29/08/2023

GAGAN GASES LIMITED

Regd: 40, Scheme 78, Part 2, Vija Nagar, Indore Ph.: 0731-3192887 CIN:L24111MP1986PLC004228 E-mail: gm@gagangases.com

NOTICE Notice is hereby given that the Share transfe register of the members shall be closed from 23.09.23 to 29.09.23 (both days inclusive for the purpose of AGM to be held or 29.09.23 at 10.00 AM at the Regd of Annual Report can be downloaded from

www.gagangases.com By order of the Board Date: 10.08.2023 Gagan Maheshwary Managing Director

PUBLIC NOTICE

lotice is hereby that behalf of our client MR PRAMOD UMEDHCHAND DOSHI is prese awful owner of Flat No.-302, Illrd floor, MENA MANSION, CO-OP. HSG. SOC. LTD., SHIV SENA LANE, BHAYANDAR (W), THANE -401101, Bearing S. No. 5-A, No.1 (Part) an S. No. 6, H. No.1 (Part), situated at Village Bhayandar, Taluka & District - Thane 401101 the original Agreement for Sale dated 25/09/1986 executed between M/s. NISHA CONSTRUCTION CO., through PARTNER -CHANDRAKANT S. SIROYA (Vendor) AND MR. PRAMOD UMEDHCHAND DOSH (Purchaser), declare that original shar ertificate issued by MENA MANSION CO-OP. HSG. SOC. LTD. has been lost nisplaced and not traceable till today.

If anyone finds the aforesaid original documents or having claim/objection required to make the known writing to me at my below address together with proof/ evidence support of their claims/objection within 15 days from the date of publication.

ADV. RAJENDRASINGH JADAUN Shop No.-1, Walchand Shopping Center, Bhayander (West), Thane - 401101. ice: Bhayander Date: 29/8/2023

PUBLIC NOTICE MANOJ CHAGANLAL SHAH the

member of RAMJHARUKHA C.H.S. LTD., having address at A/2, RAMJHARUKHA, S. V. Road, Andheri (W), Mumbai - 58. This is to inform the general public that Original share Certificate No. 140. No. of Shares - 5, Distinctive Nos. from 696 to 700 have been lost/ misplaced The member of the society has applied for Duplicate Share Certificate. The society hereby invites claims and objections from claimants/ objectors for issuance of duplicate share certificate within the period of 14 days from the publication of this Notice, with copies

of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/objections for issuance of duplicate share certificate to the secretary of RAMJHARUKHA C.H.S Ltd., if no claims/objections are received within the time/period stated above, the society shall be free to issue duplicate share certificate in such manner as is provided under the bye-laws of the society. The claims, objections, if any, received by the society shall be dealt within the manner provided under the bye-laws

of the society. RAMJHARUKHA C.H.S. LTD., Sd/-(Secretary)

PUBLIC NOTICE

Place: Mumbai Date: 29.08.2023

client MR. ERROL PETER MARKS for inviting a claim/ objection in respect of Flat No.91, 9th floor, AKASHNEEM GARDEN ENCLAVE CHS LTD having address at Tower No.A-6, Pirojsha Nagar, Vikhroli (East), Mumbai-400079, (hereinafter called

as "THE SAID FLAT"). My client acquired the said flat through a Registered Deed of Partition dated 15/03/2022, bearing Registered Document No. KRL3-11327-2022, MR. ERROL PETER MARKS has applied to the society for the transfer of the said Flat in his name as per the istered Deed of partition dated

15/03/2022. Any person/s having any claim/objection against or in respect of the said Flat or par thereof by way of inheritance, mortgage, possession, sale, gift, lease, lien, charge trust, maintenance, easement, transfer, license in any litigation or otherwise or any other right or interest whatsoever nature, are hereby required to make/claim/ raise objection in writing to the undersigned at-201/B, Shree Hari Enclave CHS Ltd, Nahur Village, Mulund West, Mumbai-400080, within 14 days from the date of publication hereof along with proof for the said claim. It no claim/objection is received within the period prescribed above, the society shall be free to transfer shares and interest in the name of my client in respect of the said flat without reference or regard to any such numorted claim or interest in the said Flat which shall be deemed to have been waived for all intents and purposes and no binding upon my client.

Date: 29/08/2023 Place: Mumbai

> SATYAM R. DUBEY ADVOCATE HIGH COURT

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that Owner of Scheduled Property SHRI. BABURAO SHANKARRAO ZAGADE (since Deceased died intestate on 18/06/2013 and his wife MRS. NEETA BABURAC ZAGADE died on 21/06/1994 leaving behind his elder son MR. NEETIN BABURAO ZAGADE and younger son MR. CHETAN BABURAO ZAGADE as his

only legal heirs.
On behalf of my client MR. NEETIN
BABURAO ZAGADE the undersigned dvocate hereby invite claims or objection om other heir/s or claimant/s or objector for the transfer of the scheduled properly and shares and interest of the decease member in the scheduled property in favour of my client within a period of 15 days from the publication of this notice, with copies of proofs to support the claim/objection at 612/B-20, Anita CHS Ltd., Sector-6, Road RSC-52, Charkop Kandivli West, Mumbai – 400067. If no aims/objections are received within the period prescribed above, the MHADA Society / Concerned Authorities shall be a the liberty to transfer the scheduler property and shares and interest of the deceased to MR. NEETIN BABURAO ZAGADE. Any claim thereafter shall be considered as waived and/or abandone and the transfer shall be completed.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

ROOM NO. C - 33 in CHARKOP (1 GIRIRAJ CO-OP HSG. SOC. LTD situated at PLOT NO. 517, SECTOR - 5 ROAD RSC - 49, CHARKOP, KANDIVL (WEST), MUMBAI - 400 067 admeasuring 30 sq. mtrs. Built-up of Village: Kandivli, Taluka: Borivali, Mumbai Suburban District.

Nitesh D. Achreka Date: 29/08/2023

CHANGE OF NAME This is to informed to General I have changed my (OLD NAME) MUKESH KHABAR to (NEW NAME) RAJU SIRAJUI MANDAL As Per Gazette Registration No. (M - 2259208) & My Wife changed her Old Name MEENA MUKESH RAI to (NEW NAME) MAJEDA RAJU MANDAL As Per Gazette Registration No. (M - 2259487) and As our Daughter is Minor We Parents

PUBLIC NOTICE

Registration No. (M - 22191905).

changed our daughter (OLD NAME) REENA MUKESH RAI to (NEW NAME)

REENA RAJU MANDAL As Per Gazetto

Notice is hereby given that Share Certificate No.120 bearing distinctive no: 596 to 600 of flat no.23 Building no 4, Satya Sonal CHSL., Jay Prakash Nagar, Road No. 2, Goregaon (E) Mumbai - 400063 in the name of SUDHIR MADHUKAR DIXIT have had been reported lost/misplaced and the holders of the said shares has applied to the said society to issue of duplicate share certificate. Any person having any claim may lodge their objection to the issue of duplicate share certificate within period of 15 days from the publication of this notice

Place: Goregaon (Mumbai) Date: 29/08/2023

PUBLIC NOTICE

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that originally Late Hasmukhrai V. Modi was lawful owner of Flat No. 8/D. Kashibai Park CHS. LTD., Green Park, Old Nagardas Road, Near Jain Temple, Andheri (East), Mumbai - 400069 and holding Share Certificate No. 36 under Dist. No. 176 to 180 in his name. That said Late Hasmukhrai V. Modi died on 19.05.2004 at Mumbai, leaving behind him, Mrs. Pravina Hasmukhrai Modi (Wrie), Mrs. Jigna Bhupesh Mehta & Mrs. Asha Nikhilbhai Vora (Daughters) and Mr. Jigar Hasmukhrai Modi (Son) as his only legal heirs to acquire his 100% share in respect of said flat as owners thereof. That vide Release Deed dated 29.03.2016, duly registered under Registration No. BDR-15/2386/2016 dated 29.03.2016, said Mrs. Pravina Hasmukhrai Modi, Mrs. Jigna Bhupesh Mehta & Mrs. Asha Nikhilbhai Vora have released their respective undivided share to and in favour or my client Mr. Jigar Hasmukhrai Modi and since then my client is in use, occupation of the said Flat Premises as sole owner thereof. Any persons claiming any right or share whatsoever by way of ownership, lease, tenancy, mortgage, pledge, lien, charge, inheritance, etc. in the said Flat Premises as vole ownership, lease, tenancy, mortgage, pledge, lien, charge, inheritance, etc. in the said Flat Premises as sole owner thereof.

Any persons claiming any right or share whatsoever by way of ownership, lease, tenancy, mortgage, pledge, lien, charge, inheritance, etc. in the said Flat Premises as sole ownership, lease, tenancy, mortgage, pledge, lien, charge, inheritance, etc. in the said Flat should intimate the undersigned in writing with supporting documents in respect of his/her claim, within 07 days of publication of this Public Notice, failing which, the claim or claims if any of such person or persons will be considered to have waived and/or abandoned. Place: Mumbai Date: 29.08.2023

RAMSAGAR K. KANOJIA (Advocate High Court). Office: Bar Room, M.M. Court Andheri, 3rd Floor, Andheri (East), Mumbai — 400069.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that my client Mr. Aliraja Bahadurali Virani owner of Commercial Unit No. B-101, 1st Floor, Khandwala Shopping Centre, Malad (East), Mumbai : 400097. T. P. S. 1, (C. T. S. No. 273). Builtup Area 702 Square Feets, purchased the aforesaid commercial unit by Way of Auction from Punjab National Bank, Maker Chamber-E, Cuff Parade, Mumbai-400006 Branch, Further my client Mr. Aliraja Bahadurali Virani would like to state that aforesaid commercial unit's 2nd (second) Chain Agreement (Gift Deed) vide registered Document No. B D R - 12 - 2212 -2012. Dated 27th March, 2012. of Mr. Jagdish Ramsharan Agarwal and Mr. Vinod Jagdish Agarwal was Lost/Misplace by my client and untraceable. If anyone finds the same or any person's who have any claim's right, title and interest in "Aforesaid Commercial Unit" property and/or any part thereof by way of sale, gift, conveyance, exchange, mortgage, charge, lease, lien, succession and/or any manner whatsoever should infimate the same to undersigned in writing with supporting document/s within 14 days from the date of publication of this public notice at the address provided hereunder. In case no objection islare received within the aforesaid time it shall be presume that there is no claimant's to "The Said Commercial Unit" property, which please take a NOTE.

Date: 29/08/2023. Place: Mumbai; Sd. - D. P. RATHOD [Advocate, High Court] Shop No. 24, Opp. Alka Vihar Hotel, Old New Era Cinema Compound, S. V. Road, Malad (West), Mumbai-400064.

PUBLIC NOTICE

of Shop No. 04, in the building known as Om Shivam Co-Op. Housing Society Ltd., 169/4, Navghar Road, Bhayander East, Dist. Thane 4011

My above said client says that 1st Agreement dated 05.11.1990 entered in between M/s SHARMILA CONSTRUCTION CO. PVT. LTD., a company in corporated under the Indian Companies Act Having its office at keval Mahal, 14/B (Part) Ground floor, Marine Drive, Mumbai 400 020 is one part and SMT. MIRADEVI S. AGRAWAL of the other part, which was not registered with any authority i.e. Joint Sub-Registrar Thane., as well as SHARE CERTIFICATE bearing Certificate No. 64, Distinction No. 306 to 310 of Rs. 50 each issued by OM SHIVAM CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED., Was lost & not found on so many efforts.

So we hereby invite claim or objection that any

person having any claim or objection against or into or upon or in respect of said Shop No. 04 and/or shares or any part of portion thereof by way of tenancy, occupancy right, inheritance, mortgage, transfer, sale, gift lease, license, lien, charge, trust, maintenance easement, attachment or otherwise howsoever are hereby required to make the same known in writing to our advocate office within 15 days from the date of publication hereof, failing hich, any such claims shall be deem to have bee

For and on Behalf of MR. PUNNULAL DUKHANTI GUPTA Jitendra R. Shukla

Date: 29/08/2023 (Advocate High Court) Shop No. 3, Narmada Chhaya CHS. Ltd., Near G-10 Pakitwala, Near Nhau Gym. Cabin, Road, Bhayander (East), Thane-401 105

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given to the public at large that, MRS. ASHA PRAVIN

DONTULWAR residing at A/103, Vitthal Dham, Chulane, Tal. Vasai, Dist. Palghar, PIN – 401202 is owner and well within possession of land along with House No.1/21, Survey No.86 A, Mahatma Phule Nagar, Village Manikpur, Tal Vasai, Dist. Palghar totally admeasuring at about 800 sq.fts. (herein after referred to as "the said premises"). The Said MRS. ASHA PRAVIN DONTULWAR has agreed to sell/transfer her title, right to use occupy and poseess the Said premises in respect thereof to our client, free from all encumbrances, claims and demands whatsoever in nature. ANY PERSON having any claim against or in respect of the Said premises or part thereof by way of sale, exchange, mortgage, charge, gift, trust, nheritance, possession, lease, lien or otherwise howsoever are hereby requested to inform the same in writting supported with original documents of claim to the undersigned having office at RK & Co. Advocates and Legal Consultants, Office No.1, Sai Pavitra Residency, Shree Datta Mandir Raod, Near Datta Mandir, Dhobi Aali, Charai Thane (West), Thane – 400 601 within a period of 14 days from the date of the publication of this notice, failing which the claim or claims, if any, of such person or persons shall be considered to have been waived and/or abandoned.
Dated this 26th August 2023
RK & Co.

(Rajshree Patil-Borhade) Advocates and Legal Consultants

Read Daily Active Times

PUBLIC NOTICE

Public is hereby informed that our client MRS. SHILADEVI R. SAROJ is the wife of Late MR. RAVINDRA KUMAR G. SAROJ who is the owner of the room being ROOM No.1218, JANTA NAGAR ZOPADPATTI, NEAR HANUMAN MANDIR, KASHIGAON MIRAROAD (E), THANE-401 107.

Public is hereby informed that being the vife of Late RAVINDRA SAROJ after his death she is the legal heir and the lawful

oner of the said room as mentioned above. Public is hereby informed that anybody ving any objection in respect of the same, Kindly inform to the address as mentioned below in written objection within 14 days of the publication of the notice otherwise any objection if any will be considered as

RAHUL P. SINGH (ADVOCATE) SHOP NO.3. PEACE HEAVEN B MIRA BHAYANDAR ROAD BHAYANDAR (E) THANE

PUBLIC NOTICE , PRITI BHARAT GUDKHA residing

lat No. A2, Tulip CHS Ltd., Central Park Nallasopara (E),Taluka Vasai, Dist Palghar - 401209, have lost / misplace Original Agreement for Sale of the abov aid flat between M/S. PRANAM ENTERPRISES and MRS. PRAMODA ARUN SHAH & MR. ARUN KUMAR CHHOTALAL SHAH (date & egistration Number Not Known). Th mplaint regarding this is registered with Tulinj Police Station vide lost report No 25925/2023 dated 28.08.2023. If any body ave any claim or objection regarding the oss of said Original Agreement for sale o he said flat, kindly contact me within the eriod of 15 days from the publication o this notice, along with documentar support in his/her/their claim failing which shall be treated as no body have any clain or objection and thereafter any claim of bjection will not be considered.

PRITI BHARAT GUDKHA

मेळकतीचे वर्णन :- गाव मौजे विरार तालका वसर्ड जिल्हा पालघर व वसई महानगर हद्दीतील सर्वे क्रमांक २३८, हिस्सा नं १, आकार १७.७०.०० सदर मिळकतीचे मालक / विकासक श्रीमती

जाहीर सूचना

प्रणिता पंकज ठाकुर यांनी वर नमूद केलेल्या मेळकतीवर **विकास हस्तांतर हक्क (TDR** मळवण्यासाठी वसई विरार महानगर पालिके कडे अर्ज केलेला आहे, तरी सदर मिळकतीवर कोणाही इसमाची हरकत वा आक्षेप, दुरुस्ती असल्यास तो/ त्यांनी सदर नोटीस वृत्तपत्रात जाहीर झाल्या पासून १५ (पंधरा) दिवसाच्या आत सदर इसमाने इसमांनी वकील प्रफुल्ल मोहन गायकवाड, बी ११, किशोर कुंज बिल्डिंग नं १, विवा कॉलेज जवळ, विरार पश्चिम, तालुका वसई, जिल्हा **पालघर, पिन कोड ४०१३०३.** या पत्या वर सर्व त्या कागदोपत्री पुरव्यांसह हरकत पाठवावी, अन्यथा सदर मिळकतीवर वरीलप्रमाणे कोणाचाही कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर हक्क नाही असे समजन उपरोक्त इसमाने सदर मिळकती बाबतचे मालकी हक्क निर्विवाद असल्याचे प्रमाण पत्र दिले जाईल यांची कृपया संबंधितानी नोंद घ्यावी.

श्री. प्रफुल्ल मोहन गायकवाड दिनांक: २९/०८/२०२३ वकील उच्च न्यायालय, मुंबई वी.कॉम, एल.एल.बी, एल.एल.एम

PUBLIC NOTICE Notice is hereby given that my client Mr. Aliraia Bahadurali Virani

owner of Commercial Unit No. B-202, 2nd Floor, Khandwala Shopping Centre, Malad (East), Mumbai: 400097. T. P. S. 1, (C. T. S. No. 273), Builtup Area 1047 Square Feets purchased the aforesaid commercial unit by Way of Auction from Punjab National Bank, Maker Chamber-E, Cuff Parade, Mumbai-400006 Branch, Further my client Mr. Aliraja Bahadurali Virani would like to state that aforesaid commercial unit's 2nd (second) Chain Agreement (Gift) Deed) vide registered Document No. B D R - 12 - 2213 - 2012. Dated 27th March, 2012, of Mrs. Angoridevi Jagdish Agarwal and Vinod Jagdish Agarwal was Lost / Misplace by my client and untraceable. If anyone finds the same or any person's who have any claim's right, fitle and interest in "Aforesaid Commercial Unit" property and/or any part thereof by way of sale, gift, conveyance, exchange, mortgage, charge, lease, lien, succession and/or any manner whatsoever should infimate the same to undersigned in writing with supporting document/s within 14 days from the date of publication of this public notice at the address provided hereunder. In case no objection is/are received within the aforesaid time it shall be cresume that there is no claimant/s to "The Said Commercial Unit "property which please take a NOTE.

Place: Mumbai; Date: 29/08/2023. Sd./- D. P. RATHOD [Advocate, High Court] Shop No. 24, Opp. Alka Vihar Hotel, Old New Era Cinema Compound, S. V. Road, Malad (West), Mumbai-400064.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that Mr. Jayesh Janmajay Bhoir and Mrs. Miss. Jaylaxmi L Gavas (Loar Applicants) were taken Home loan of Rs.13,19,336/- (Thirteen Lacs Nineteen Hundred Three Hundred and Thirty Six Rupees) against the Flat No. 202, 2nd Floor, Admeasuring 390 sq.ft Carpet Area, in the building known as "Mahadev Apartment", situated at Village Umelman, Taluka Vasai, District Palghar, bearing Survey No. 94A, Hissa No. 3, Registration/ Sub District of Vasai and District and Registration District Of Palghar from M/s. Swagat Housing Finance Company limited (Company) vide Sanction Letter dated 27.10.2020.

fter receiving the said loan amount, Mr. Jayesh Janmajay Bhoir and Mrs. Miss. Jaylaxmi L Gavas had defaulted to repayment the same. M/s. Swagat Housing Finance Company limited even though repeated reminders to the Loan applicants for the repayment, however, Loan applicants failed to repay the said outstanding loan amount of Rs. 10,55,606/- (Ten Lacs Fifty ive Thousand Six Hundred and Six Rupees). Company through its authority representative try co-ordinate above loan applicant but

intentionally they neglect the same.

Company hereby informed you that, Company is taking legal action against the loan applicant and said property.

All persons are hereby informed, not to deal or carry out any transaction with anyone on respect of said property. All persons having or claiming any right, title, estate or interest in the said flat by way of sale, co-ownership, partnership agreement for sale, exchange, transfer, lease sub –lease, mortgage, deed, tenancy, leave and license, trust, inheritance, bequest, possession, charge, lien, easement, or otherwise, howsoever, into or upon the said flat or any part hereof are hereby requested to make the same nown in writing together with all documentary proof in support thereof to the undersigned at the address mentioned herein below within 15 days m the date of publication

Adv. Pooja Rupesh Phatkare

A-1/207, Laram Center, Above federal Bank, Opp. Railway Station, Andheri West- 400 058.

पश्चिमी क्षेत्र में संवेदनशील संस्थानों उद्योगों की सुरक्षा पुख्ता करना जरूरी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी क्षेत्र को देश का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा है कि यह सकल घरेल उपाद में 25 प्रतिशत योगदान करता है और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों में अतिसंवेदनशील संस्थान तथा उद्योगों को देखते हुए इनकी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाने

शाह ने सोमवार को गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही. इस अवसर पर शाह ने गृह मंत्रालय के अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के ई-रिसोर्स वेब पोर्टल का शुभारंभ किया. इस पोर्टल से क्षेत्रीय परिषदों के कार्य में सुगमता आएगी. बैठक में गुजरात महाराष्ट्र और गोवा के मुख्यमंत्रियों तथा दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव के प्रशासक, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण, पश्चिमी क्षेत्र के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव,केन्द्रीय गृह सचिव, सचिव, अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय सहित केन्द्र और राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

उन्होंने कहा . पश्चिमी क्षेत्र देश का एक महत्वपूर्ण जोन है, देश की जीडीपी में 25 प्रतिशत योगदान के साथ यह क्षेत्र फाइनेंस, आईटी,

अमेरिकी हवाई हमलों में अल-शबाब के 13 आतंकवादियों की मौत

मोगादिश्. अमेरिकी अफीका कमांड ने रविवार को कहा कि सोमालिया सरकार के अनुरोध पर अमेरिकी सशस्त्र बलों ने अल-शबाब आतंकवादी समूह के खिलाफ हवाई हमला किया जिसमें समूह के 13 आतंकवादी मारे गए. बयान में कहा गया है कि हमला किसमायो शहर से 45 किलोमीटर (27.9 मील) उत्तर-पश्चिम में लक्ष्य पर हुआ. अल-शबाब सोमालिया स्थित जिहादी आतंकवादी समूह है जो अल-कायदा आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ है.

आज का इतिहास

1612 – सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने पूर्तगालियों को हराया .

1833- ब्रिटिश दास उन्मूलन अधिनियम ने कानून का रूप

1842 - ग्रेट ब्रिटेन और चीन ने नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर किये.

1914– न्यूजीलैंड के सैनिकों ने जर्मन समोआ पर कब्जा किया . 1916– अमेरिकी कांग्रेस ने जोन्स अधिनियम को स्वीकृति प्रदान

1932– नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध-

विरोधी समिति का गढन . 1941- रूस में जर्मन

इंस्तजकमांडो ने १४६९ यहूदी बच्चों की हत्या की . 1945 - ब्रिटेन ने हांगकांग को

जापान से मुक्त कराया . 1957– कांग्रेस ने नागरिक अधिकार अधिनियम, 1957

पारित किया

1974- चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में लोकदल पार्टी की

1976– बंगाल के कवि एवं महान क्रांतिकारी काजी नजरुल इस्लाम का बंगलादेश के ढाका

में निधन. १९९६- आर्कटिक द्वीप के स्पिट्सबर्गेन की पहाड़ी में वनुकोवो एयरलाइंस के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी १४१ की मौत .

लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल के दौरान 85 लोग गिरफ्तार

लंदन. लंदन के नॉटिंग हिल जिले में पुलिस ने कैरेबियन कार्निवल के पहले दिन 85 लोगों को गिरफ्तार किया है, हालांकि इस दौरान कोई गंभीर घटना दर्ज नहीं की गई. मेट्रोपॉलिटन पुलिस सेवा ने यह जानकारी दी है. पुलिस ने एक बयान में कहा,रविवार को 21:30 बजे (20:30 जीएमटी) तक, 85 गिरफ्तारियां हो चुकी थीं. बयान में कहा गया है कि गिरफ्तार किए गए ज्यादातर लोगों को हथियार, मादक पदार्थ रखने या यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार



डायमंड, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल और डिफेंस का हब है. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य लंबी तटीय सीमाएं साझा करते हैं जहां अतिसंवेदनशील संस्थान और उद्योग हैं और इनकी कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार प्रयास करने की

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के दौरान कुल 17 मुद्दों पर चर्चा हुई. जिनमें से 9 का समाधान निकाल लिया गया और राष्ट्रीय महत्व के विषयों सहित शेष मुद्दों पर गहन चर्चा कर निगरानी के लिए रखा गया. बैठक में पूरे देश और विशेष रूप से सदस्य राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ जिनमें भूमि संबंधी मद्दों का हस्तांतरण, जलापूर्ति, नीलाम की गई खदानों का संचालन, सामान्य सेवा केंद्र में नकद जमा सुविधा, बैंक शाखाओं, डाक द्वारा गांवों में बैंकिंग सविधाएं

ई-रिसोर्स वेब पोर्टल का शुभारंभ किया बैठक के दौरान कुल 17 मुद्दों पर चर्चा

पहुंचाना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, बलात्कार और पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट टैक विशेष अदालतों की योजना का कार्यान्वयन,गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिवटी प्रदान करने के लिए राज्यों द्वारा भारत नेट बुनियादी ढांचे का उपयोग, 5 जी सेवा शुरू करने की सुविधा के लिए राज्यों द्वारा वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा संशोधन का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2022 पर अमल और प्राथमिक कृषि ऋग समितियों को मजबूत करना आदि शामिल है.

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार 120, एफ-विंग, प्रथम तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001, 011-23384106

"संभावित बोलीदाताओं से सुझाव आमंत्रित करना"

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय (भा.स.) जून २०२० में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई वाणिज्यिक खनन योजना के माध्यम से कोयला ब्लॉकों की नीलामी आयोजित कर रहा है। कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर 32 कोयला खानों/ब्लॉकों की एक सूची अपलोड की गई है जिसमें नीलामी के अगले दौर के दौरान इन वाणिज्यिक खनन के लिए अपील बढ़ाने के लिए संभावित बोलीदाताओं से सुझाव और विचार मांगे गए हैं। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त पर अधिकं जानकारी के लिए https://coal.nic.in/en/nominated-authority/auction-allotment वेबसाइट पर जाएं और nomauthority.moc@nic.in तथा manish.uniyal38@nic.in पर ईमेल के माध्यम से अपनी रुचि की अभिव्यक्ति/सुझावों को प्रस्तुत करें।

CBC 04107/12/0005/2324

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला धार (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 67/2023-24/बी-121 (सिक्यूरिटी) आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड शाखा पीथमपुर तर्फे प्राधिकृत अधिकारी पता- डी.यू.जी.एफ. ४६ व ४७, प्रथम मंजिल, सुदर्शन काम्पलेक्स, सेक्टर-1 महू-नीमच रोड़, पुलिस थाने के पास, पीथमपुर जिला धार (म.प्र.)

छोटेखां मंसूरी पिता शकूर खान मंसूरी, मकान नंबर 27 का दक्षिणी भाग एवं 28 का उत्तरी भाग, देवश्री कॉलोनी, प.ह.न. 61, नगर पालिका सीमा के अंतर्गत मुख्य मार्ग से अंदर भूमि सर्वे नंबर 386/2/1 का पेकि में होकर वार्ड

नंबर 14, ग्राम पीथमपुर जिला धार एवं अन्य- 1

// सूचना-पत्र//

क्रमांक/ 516/रीडर/ए.डी.एम./2023 धार, दिनांक 09.08.2023

 छोटेखां मंसूरी पिता शकूर खान मंसूरी 2. श्रीमती मुनव्वर बी पति छोटेखान मंसूरी

पता - मकान नंबर 27 का दक्षिणी भाग एवं 28 का उत्तरी भाग, देवश्री कालोनी प.ह.न. ६ 1 , नगर पालिका सीमा के अंतर्गत मुख्य मार्ग से अंदर , भूमि सर्वे नंबर 386/2/1 का पेकि में होकर वार्ड नबंर 14, ग्राम पीथमपुर जिला धार --0--

एतद् सूचना पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि आपके द्वारा ऋण(लोन) लिया गया था, वह लोन नही चुकाने के कारण इस न्यायालय के समक्ष वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिभूति के रूप में अनुसूची रखी गई निम्नानुसार सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

ı				
	अ. क्रं.	सम्पत्ति का विवरण	स्वीकृत ऋण राशि	कुल बकाया राशि
		मकान नंबर 27 का दक्षिणी भाग एवं 28 का उत्तरी भाग देवश्री कालोनी, प.ह.न. 61, नगर पालिका सीमा के अंतर्गत मुख्य मार्ग से अंदर, भूमि नंबर 386/2/1 का पेकि में होकर वार्ड नंबर 14, ग्राम पीथमपुर जिला धार का कल क्षेत्रफल 300 वर्गफीट	4,34,346 /- दिनांक	रूपये 1,59,938/- + दिनांक 07.03.2023 से ब्याज एवं अन्य खर्चे

अतः आप अथवा आपके अभिभाषक उपस्थित होकर प्रस्तुत आवेदन में वर्णित तथ्यों वे संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न वित्तीय आस्त्रियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अंतर्गत उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किया जावे ? उक्त सूचना पत्र का जवाब मेरे समक्ष पेशी दिनांक 04.09.2023 को समय 11 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थित की दशा मे एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रस्तावित कार्यवाही की जावेगी।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकार्र जिला धार (म.प्र.)

डेंगू, चिकनगुनिया का उपचार मुफ्त किया जाए: प्रो चावला

अमृतसर, 28 अगस्त (वार्ता) पंजाब की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री प्रो चावला ने पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह से राज्य में फैले डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार का उपचार मुफ्त करने की मांग की है. प्रो चावला ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख कर कहा कि डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल बुखार के कारण अमतसर के हालात बहुत खराब है. सरकारी अस्पतालों में जितना प्रबंध है, मरीज उससे ज्यादा हैं. बीमारी को गंभीरता से लें. सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के आभाव में लाखों रुपये खर्च करके लोग प्राइवेट अस्पतालों में पडे हैं.

पंजाब इंस्टीटयूट ऑफ लिवर एंड बिलियेरी साइंसेज की स्थापना को मंजूरी

चंडीगढ़, 28 अगस्त (वार्ता) पंजाब में लीवर की बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को एसएएस नगर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइसेज की स्थापना को मंजूरी दे दी. इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया

जेएम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड

दिनांक: 28 अगस्त 2023

ऋण राशि अदा करने की मांग की गर्द थी।

नेम्नलिखित शाखा कार्यालयों को नए पते पर स्थानांतरित कर दिया है।

जनता की समस्या के लिए हर वक्त सरकार संकल्पित

लखनऊ, 28 अगस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार जनता की हर समस्या के समाधान के लिये दृढ़ संकल्पित

500 से अधिक फरियादियों कीरही उपस्थिति मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनीं

योगी ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजन से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने के दौरान कहा कि जिन जरूरतमंदों का पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है, सरकार उनके साथ सदैव खड़ी है. वह बेझिझक सरकार के सामने अपनी समस्या रख सकते हैं. उनका पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा. उनके इलाज के लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी

GAGAN GASES LIMITED

Regd: 40, Scheme 78, Part 2, Vijay

Nagar, Indore Ph.: 0731-3192887

CIN:L24111MP1986PLC004228

E-mail: gm@gagangases.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Share transfe

register of the members shall be closed from

23.09.23 to 29.09.23 (both days inclusive) for the purpose of AGM to be held on

29.09.23 at 10.00 AM at the Regd off.

Place: Indore By order of the Board

Date: 10.08.2023 Gagan Maheshwary

Managing Director

JM FINANCIAL

www.gagangases.com

मध्य प्रदेश की शाखा कार्यालय का पता बदलना

सभी ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें कि हमने अप-

जेएम फाइनेशियल होम लोन लि., माई डियर, पहली मंजिल,

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वार

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002

की धारा 13 (12) संपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत

अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर

चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतव

द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्ज

अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है ।

ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन

सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह टाट

कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना

ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नं. 72, मंगलमय सिटी, सर्वे नंबर 146/2, 147/1, 154, 155, ग्राम डबल चौकी, तहसील और जिला में स्थित है।

तहसील एवं देवास (म.प्र.) प्लॉट का क्षेत्रफल 800 वगफिट, चर्तुसीमाएँ : पूर्व : कॉलोनी रोड,

संपत्ति 2 : प्लॉट नं. 73 मंगलमय सिटी, सर्वे नंबर 146/2, 147/1, 154, 155, ग्राम

डबल चौकी, तहसील एवं जिला देवास (म.प्र.) में स्थित है। प्लॉट क्षेत्रफल 800 वर्गफिट

चर्तुसीमाएँ : पूर्व : कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर 94, उत्तर: प्लॉट नंबर 74, दक्षिण:

सुरक्षित संपत्ति/अचल संपत्तियों का विवरण: प्लाट नं. 71, मंगलमय सिटी, ग्राम

डबलचौकी, तहसील एवं जिला देवास स्थित संपत्ति के समस्त भाग, **चर्तुसीमाएँ** : पूर्व :

श्री अक्षय पाण्डे

श्रीमती शारदा पाण्डे

सुरक्षित संपत्ति / अचल संपत्तियों का विवरण: प्लॉट नंबर 98 साथ ही उस पर निर्मित निर्माण

चर्तुसीमाएँ :: पूर्व : प्लॉट नंबर 101, पश्चिम: कॉलोनी रोड, उत्तर: प्लॉट नंबर 22, दक्षिण

प्रेम नगर कॉलोनी पार्ट- ॥ , देवास जूनियर देवास , उत्तरी भाग क्षेत्रफल- ३६ वर्गमीटर ,

कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर 96, उत्तर: प्लॉट नंबर 72, दक्षिण: प्लॉट नंबर 70

मांग सूचना अनुसार राशि एवं मांग

23-05-2023 को राशि

₹ 7,19,468/-

23-05-2023 को राशि

₹ 3,49,019/-

23-05-2023

₹ 12,38,013/-

वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

23-08-2023

23-08-202

दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।

बाध्यताधारीयों /

कानूनी वारिसों/कानूनी

श्री महादेव किशोर

कृष्णा बाई किशोर

श्री महादेव किशोर,

कृष्णा बाई किशोर

10020048

TCHHL0284000100078511

TCHIN0284000100080086

दिनांक : 23-08-2023

स्थान : इन्दौर

ो धारा 13 की उपधारा (८) के उपबंधों की ओर आक्रष्ट किया जाता है

पश्चिम: प्लॉट नंबर 95, उत्तर: प्लॉट नंबर 73, दक्षिण: प्लॉट नंबर 71.

पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कद मार्ग, लोवर परेल मुबंई - 400013. सीआइएन नं. U67190MH2008PLC187552.

जेएम फाइनेंशियल होम लोन लि. 301 तीसरी मंजिल प्रोसपेरीटी बिल्डींग बीटीसी



और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की हर समस्या को समझती है और में बख्शा नहीं उसके निराकरण के लिए दृढ़ संकल्पित है. जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीब 500 से अधिक फरियादियों की उपस्थिति रही. मुख्यमंत्री ने एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान कई आलाधिकारी भी मौजूद रहे. उन्होने सभी जिलाधिकारियों समेत अन्य अधिकारियों को आमजन की समस्या को अपनी प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि जनता की समस्या नहीं है. सरकार प्रदेश के जरूरतमंद के समाधान में हीलाहवाली करने लेकर आए. सीएम योगी ने आए

वाले अधिकारियों को किसी सरत उन्होंने अधिकारियों को समय से अपने ऑफिस पहंचकर जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिये और प्राथमिकता के आधार पर उसका निस्तारण करने को कहा. उनकी हर समस्या का समयबद्ध तरीके से निस्तारण कर हर संभव मदद की जाए. जनता दर्शन में ज्यादातर मामले अवैध कब्जे, आपसी संपत्ति विवाद, आपसी विवाद, परिवारिक कलह, पैमाइश और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार को

सभी लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है, उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता वह निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए. हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए. जनता दर्शन में कुछ लोगों की रोजगार संबंधी समस्या पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक भरोसा देते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभागों में जनता से मिलने के समय का विशेष ध्यान रखा जाए. इस दौरान अधिकारी अपने ऑफिस में मौजूद रहें. यदि वह किसी आवश्यक कार्य के चलते ऑफिस में नहीं उपस्थित हैं तो अपने अधीनस्थ को यह जिम्मेदारी सौंपें .

आंचलिक कार्यालय: 380, साकेत नगर,

द्वितीय मंजिल, इंदौर-452018,

यूको बैंक 👔 UCO BANK

फोन : 0731-2438305 आधिपत्य हेतु सूचना पत्र अचल संपत्तियों के लिए नियम 8(1)

चूंकि , **युको बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियेम २००२, की धाँरा 13(12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ का सपठित नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रवंतन करके निम्न ऋणगृहिताओं से सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर ऋण राशि अदा करने के अपेक्षा की गई थी। चूंकि ऋणगृहिताओं ने अदायगी में त्रुटी की है, अत: ऋणगृहिताओं तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न हस्ताक्षारकर्ता ने नीचे वर्णित संपत्तियों का आधिपत्य अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उपरोक्त . नेयमों के नियम 8 के अंर्तगत प्राप्त कर लिया है । ऋणगृहिताओं को विशेषत: और सर्वसाधारण को सतर्क किया जाता है कि इन संपत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करे, यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **यूको बैंक** के ऋणगृहिताओं के समक्ष ार्णित राशि एवं ब्याज के चार्ज (प्रभार) के अधीन होगा

	ागत सारा ९५ ब्याज के याज (प्रमार) के जवान होगा ।								
शाखा का नाम	ऋणियों/जमानतदारों का नाम	सूचना दिनांक धारण दिनांक	बकाया राशि (₹)	अचल संपत्तियों का विवरण					
शाखा	श्री अनिल पांडुरंग शिंदे, श्रीमती भारती किशोर शिंदे	31.05.2023 24.08.2023	16,81,749.86 + ब्याज एवं अन्य खर्चे	सपंत्ति के सभी प्रमुख अंग खसरा नं. 400/3, शीट नं. 11, पुराना प्लाट नं. 141/17, रामलाल नमस्ते मार्ग, कुण्डलेश्वर वार्ड नं. 24, खण्डवा, क्षेत्रफल: 546 वर्गफीट, मालिक: श्री अनिल शिंदे पिता पांडुरंग शिंदे एवं श्रीमती भारती शिंदे पिता किशोर शिंदे, वाईड रजिस्टर्ड ई-सेल डीड दिनांक 28.03.2016 डीड नं. MP219262016A1185523, सब रजिस्टर्ड खण्डवा (म.प्र.), चर्तुःसीमा: उत्तर: 10 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: सड़क, पूर्वः पांडुरंग मराठा का मकान, पश्चिम: सदीशचंद्र डॉगरे का मकान					
स्थान :	खण्डवा, दिनांक	: 29.08.2	2023	प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक					

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़,

अधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069. **इन्दौर शाखा** : प्लाट नं. 4 एवं 5, दुकान नं. 105, 107, 109, प्रथम मंजिल शेखर सेन्ट्रल, पलासिया चौराहा, मनोरमागंज, ए.बी. रोड्

इन्दौर, मध्यप्रदेश ४५२०० १

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट ४ (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL) के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ संपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभूगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ / प्रतिभृतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं		ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम) धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)		मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
	1 (लोन कोड नं. 00300003831/ इन्दौर शाखा) भेरुलाल गुजरबड़िया (ऋणी), बबीता गुजरबड़िया (सह-ऋणी) रोहित सूर्यवंशी (जमानतदार)		संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 765 1 प्रायवेट प्लाट नं. 22 प.ह.नं. 5 न्यू 12 ग्राम रूनजी गौतमपुरा, चम्बल नाका के पास, इन्दौर, मध्यप्रदेश 453220 चर्तुःसीमा : पूर्व : प्रायवेट प्लाट नं. 23, पश्चिम : प्रायवेट प्लाट नं. 21, उत्तर : अन्य भूमि, दक्षिण : रोड़	08-06-2023	24-08-2023
ľ	स्थ	ान : इन्दौर	प्राधिकृत अधि	कारी	

दिनांक : 29,08,2023

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

परिशिष्ठ IV (नियम 8(1)) **आधिपत्य सूचना** (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड CIN - U67100MH2007PLC174759

रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि, मूल उधारदाताओं ने **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को नीचे दी गई वित्तीय संपत्तियां सौंपी हैं, जो नीचे उल्लिखित विभिन टस्टियों (ईएआरसी) के रूप में अपनी क्षमता से काम कर रही हैं। एसाइनमेंट करार के अनुसरण में सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत . ईएआरसी समनुदेशक की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित समनुदेशक के सभी अधिकार, हक और हित ऋणीयों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में

ईएआरसी के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अघिनियम की घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लेखित मांग सूचना जारी की थी जिमसें उंघारकर्ताओं से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतद्द्वारा उधारकर्ताओं और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्र क्शन कंपनी लिमिटेंड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपघारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन—देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन—देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा ।

I	समनुदेशक	ट्रस्ट	ऋण खाता	उधारकर्ता एवं सह—	मांग सूचना की राशि	कब्जे की	कब्जे की
I	का नाम	का नाम	नंबर	उधारकर्ता(ओं) का नाम	एवं दिनांक	तारिख	स्थिति
	बजाज फायनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC - 422	H430FBL 0339221	1) ड्रीम्स कार्डस् (ऋणी), 2) सैयद अकबर अली (सह-ऋणी) 3) फाहमीदा खातून (सह-ऋणी)	₹ 37,05,984.18 (रुपये सैंतीस लाख पाँच हजार नौ सौ चौरासी एवं अठारह पैसे मात्र) 08-02-2023 को एवं 27.02.2023	23-08-2023	सांकेतिक आधिपत्य
П						~ \	

संपत्ति का विवरण : प्लॉट नंबर 18, सेक्टर –3 पर निर्मित आरसीसी बिल्डिंग का पूरा भाग और पार्सल, जिसमें प्लॉट क्षेत्र 600 वर्ग फुट वार्ड नं. 15, रंभा नगर, ग्राम छोला, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल में स्थित है। **चर्तुसीमाएँ:** पूर्व: 15 फीट चौड़ी रोड़; पश्चिम: प्लॉट नं. 9; उत्तर: प्लॉटनं. 19; दक्षिण: प्लॉटनं. 17.

एडलवाइस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	EARC TRUST SC- 451	LBHPLAP0 000051179	२) दिलीए कमार गतीर	₹ 35,42,842.71/- (रूपए पैतीस लाख बयालीस हजार आठ सौ बयालीस एवं इकहत्तर पैसे मात्र) 28-02-2023 को एवं 11-03-2023		सांकेतिक आधिपत्य	
--	--------------------------	-----------------------	---------------------	--	--	---------------------	--

संपत्ति का विवरण : एक आवासीय लीजहोल्ड मकान नं. ए153 का पूरा भाग और पार्सल, जिसमें प्लॉट क्षेत्रफल 243.90 वर्ग मीटर या 2426.36 वर्ग फीट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोहेफिजा, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) **चर्तुसीमाएँ :** पूर्व: 12.00 सेमी. रोड़; पश्चिम: मकान नं. एन / 158; उत्तर: मकान नं. एन / 152; दक्षिण: मकान नं. एन / 154

	कर्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एसबीएफसी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित	EARC TRUST SC- 424	PR00 593858	1) मेसर्स यादव किराना स्टोर (ऋणी), 2) श्री देव कुमार (सह-ऋणी) 3) श्रीमती रानी यादव (सह-ऋणी एवं बंधककर्ता)	₹ 45,85,113.74/- (रूपए पैंतालीस लाख पचासी हजार एक सी तेरह एवं चौहत्तर पैसे मात्र) 23-02-2023 को एवं 11-03-2023	23-08-2023	सांकेतिक आधिपत्य	
--	---	--------------------------	----------------	---	--	------------	---------------------	--

संपत्ति का विवरण : संपत्ति का वह सारा भाग और पार्सल; शेड नं. 199 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सुदामा नगर, कोटारा, भोपाल (मध्य प्रदेश), हुजूर तहसील, भोपाल जिला, भोपाल (मध्य प्रदेश) कुल क्षेत्रफल 47.95 वर्ग मीटर, या 516.00 वर्ग फीट **चर्तुसीमाएँ**: पूर्व: शेड नं.198; पश्चिम: शेड नं.221; उत्तर: खुली भूमि; दक्षिण: रोड़

विशेष रुप से कर्जदार और सामान्य रुप से सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन – देन न करने के लिए आगाह किया जाता है कि और संपत्ति का कोई भी लेन - देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। प्राधिकृत अधिकारी स्थान : मध्य प्रदेश

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड दिनांक : 23.08.2023

सील

्राचित्र पंजाब नैश्नल बैंक punjab national bank

सर्कल ऑफिस : 20, स्नेह नगर, सपना संगीता मेन रोड़, इन्दौर फोन नं. 0731-2438010

माग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन् अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना (सरफेसी अधिनियम)

नीचे लिखे गए बकायादारों /जमानतदारों को जो बैंक के ऋण पुर्नभुगतान नहीं कर रहे है, पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में वर्णित प्रवधानों के अंतर्गत यह सूचित किया जाता है की वर्णित पूर्ण बकाया धन राशि एवं ब्याज एवं अन्य खर्चों का **६० दिवस** के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(4) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपत्तियों का आधिपत्य लेकर सार्वजनिक घोष विक्रय के माध्यम से बकाया राशि की वसूली कि जाएगी उधार लेने वाले ऋणियों /जमानतदारों को विशेष रुप से एवं आम जन को साधारण रुप से इस नोटिस के द्वारा सावधान किया जाता है की यह संपत्ति के संबंध में कोई व्यवहार न करें और संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का व्यवहार **पंजाब नेशनल बैंक**, को देय सम्पूर्ण राशि ब्याज सहित के लिए पंजाब नेशनल बैंक के

L					
	<u>.</u>	ऋणी/जमानतदार का नाम, पता एवं खाता संख्या	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक	बकाया राशि (रू.)
	1	1) श्रीमती सुषमा मालवीय पति जयंत मालवीय पता – ओ.आर. – 224 इंडस सेटलाइट ग्रीन, कैलोद हाला, इंदौर 2) जयंत मालवीय पिता वृजलाल मालवीय पता – ओ.आर. – 224 इंडस सेटलाइट ग्रीन, कैलोद हाला, इंदौर शाखा: एमपीएचबी इंदौर	सम्पत्ति का शेष एवं सम्पूर्ण भाग भूमि एवं भवन आवासीय संपत्ति प्लॉट नं. 41 बजरंग नगर इंदौर क्षेत्रफल 800 वर्गफीट चर्तुसीमाएँ:- पूर्व- प्लॉट नं. 40, पश्चिम- प्लॉट नं. 42, उत्तर- सड़क,दक्षिण- बैक लाइन सम्पत्ति मालिक: श्री जयंत मालवीय पिता बृजलाल मालवीय और सुषमा मालवीय पत्ति जयंत मालवीय	11.08.2023	₹ 9,50,422.42 +Interest + Other Charges w.e.f. 01.08.2023

उक्त अधिनियम के तहत जारी उक्त मांग नोटिस संदर्भित ऋणियों /जमानतदारों को उनके उपलब्ध पते पर भेजे जा चुके है। जो कि हमे अनडिलीवर्ड वापिस प्राप्त हुए है (1) नोटिस की विस्तृत जानकारी/प्रति किसी भी कार्य दिवस को **पंजाब नैशनल बैंक,** की संबंधित शाखा से प्राप्त की जा सकती है। **(2)** सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई से

बचने के लिए कृपया आज से 60 दिनों के भीतर उपरोक्त मांग सूचना में उल्लेखित ब्याज और लागत आदि के साथ बकाया राशि का भुगतान करें।

प्राधिकृत अधिकारी,

स्थान : इंदौर, दिनांक : 29–08–2023 पंजाब नैशनल बैंक